


No. A-11013/6/2017-AT
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)
New Delhi, dated 09.04.2019
CORRIGENDUM

Central Administrative Tribunal (CAT) Appointment of Members for the
vacancy year 2018

Attention is drawn to this Department's advertisements of even No. dated 1st February, 2018 (published in Newspapers on 08th February, 2018) inviting applications for 06 vacancies of Judicial Members and 08 vacancies of Administrative Members in the Central Administrative Tribunal (CAT) arising during the year 2018. These vacancies are now to be filled up under the provisions of Administrative Tribunal Act, 1985 as amended by the Administrative Tribunal Act, 2006 subject to final result of the WP No.640/2017, in the light of the interim direction of the Honourable Supreme Court dated 08.3.2019 under CP NO.2124/2018 in the said Writ Petition.

Eligible and interested persons may apply afresh for these posts, keeping in view the position elaborated in para 1 above before 22nd April, 2019 before closure of office hours. The details of eligibility conditions and the application form to be filled up may be downloaded from the Department of Personnel and Training website www.persmin.gov.in. In the case of serving officers of Central/State Governments, their applications should also, in addition to direct application, be routed through the Cadre Controlling Authorities.

The applicants who have already applied in response to the advertisements dated 1st February, 2018 and subsequent advertisement extending the date of receipt of applications upto 14.08.2018, need not apply again as their earlier applications will be considered (if eligible) under the old Act and rules unless they withdraw their application by 22nd April, 2019. The applications should be addressed to the Secretary, Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi 11001.


9.4.19
(I.P. Nagpal)
By. Secy (AT)

The details of Eligibility Conditions and Application Form

The Administrative Tribunals Act, 1985 was amended by the Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2006 (No. 1 of 2007). As per sub-sections (2) and (3) of Section 8 of the Act:

“8(2) A Member shall hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office extendable by one more term of five years:

Provided that no Member shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

8(3) The conditions of service of Chairman and Members shall be the same as applicable to Judges of the High Court.”

2. Regarding the eligibility conditions, Sub-section 2(a) and 2(b) of Section 6 of the Administrative Tribunals Act, 1985 as amended by the Administrative Tribunals (Amendment) Act, 2006 provides that-

“6 (2) A person shall not be qualified for appointment,-

(a) as an Administrative Member, unless he has held for at least two years the post of Secretary to the Government of India or any other post under the Central or State Government and carrying the scale of pay which is not less than that of a Secretary to the Government of India for at least two years or held a post of Additional Secretary to the Government of India for at least five years or any other post under the Central or State Government carrying the scale of pay which is not less than that of Additional Secretary to the Government of India at least for a period of five years;”

Provided that the officers belonging to All-India services who were or are on Central Deputation to a lower post shall be deemed to have held the post of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, from the date such officers were granted proforma promotion or actual promotion whichever is earlier to the level of Secretary or Additional Secretary, as the case may be, and the period

spent on Central deputation after such date shall count for qualifying service for the purposes of this clause;"

(b) as a Judicial Member unless he is or qualified to be a Judge of a High Court or he has for at least two years held the post of a Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs or the Legislative Department including Member-Secretary, Law Commission of India or held a post of Additional Secretary to the Government of India in the Department of Legal Affairs and Legislative Department at least for a period of five years."

ANNEXURE-I

**PARTICULARS/BIO-DATA FOR THE POST OF ADMINISTRATIVE MEMBER IN
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL FOR THE YEAR 2018**

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Educational Qualifications beyond 10+2:
4. Whether the candidate is (*Strike out whichever is not applicable)
 - (a) A Member of All India Service, or
 - (b) A Member of any Central Service, or
 - (c) A Member of Indian Legal Service, or
 - (d) A Member of any State Service, or
 - (e) Any other service (Please indicate name/details)
 - (a) In the case of an All India Service please indicate the name of Service, concerned cadre and the year of allotment:
 - (b) In the case of Central Services, the name of the service and year of allotment, along with the date from which in Grade 1 or Group A or Class 1 as the case may be:
 - (c) In the case of Indian Legal Service, the name of the service and year of allotment, along with the date from which in Grade I or Group A or Class I as the case may be:
 - (d) In the case of any State Service, the name of the state, service and the date from which the candidate is in Grade 1 or Group A or Class 1 as the case may be:
5. Date of Superannuation:
6. Pay Scale (Present/Last):
7. Designation of Present/Last Post held:
8. (a) Office Address & Telephone Number:
(b) Residential Address & Telephone Number:
(c) Correspondence Address (along with Mobile Number and
Email ID):
9. Details of post held (indicated below) qualifying for appointment as Administrative Member (* Strike out whichever is not applicable)

- (a) at least for two years held the post of a Secretary to the Government of India or its equivalent (specify period), or
- (b) at least for five years, held the post of an Additional Secretary to the Government of India or its equivalent (specify period), or
- (c) at least for five years, held the post of a Secretary and Additional Secretary to the Government of India, or its equivalent, taken together, (specify period separately).

(In the case of All India Service, whether any period, mentioned above, covered by proforma promotion. If so, details thereof and attach a copy of the order)

10. The details of Post(s) held since joining service (including proforma promotion if any) may please be indicated in the descending order i.e. from higher post to the lower one, in the following proforma:

(The details of personnel and quasi-judicial experience must be indicated in column 7)

| S. No | Post held | Empanelment as Secretary / Additional Secretary (year) | Pay scale | Period From To | Level (Secretary to the Govt of India / Additional Secretary to the Govt of India / Secretary Level / Additional Secretary level) (Write wherever applicable) | Experience* | | |
|-------|-----------|--|-----------|----------------------|---|----------------------------------|--|--------|
| | | | | | | Quasi-judicial (details thereof) | If related to service /personnel matters (details thereof) | others |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*The experience related to quasi judicial or service / personnel matters be given post wise and separately in respective columns 6 or 7.

11. Indicate special achievement during last 10 years (separate sheet may be attached for indicating special achievement – in not more than 150 words).

12. When the officer will be available for joining the Tribunal, if selected (Indicate month of the year 2019):

The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been suppressed. I understand that in case of my selection, if any information furnished above is found to be false or mis-represented at a later stage, my selection is liable to be cancelled with the approval of the Competent Authority.

(SIGNATURE)

(NAME IN CAPITAL.....)

Place:

Date:

ANNEXURE-II

**PARTICULARS/BIO-DATA FOR THE POST OF JUDICIAL MEMBER IN CENTRAL
ADMINISTRATIVE TRIBUNAL FOR THE YEAR 2018**

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Current/Past Service
 - (i) High Court Judge
 - (ii) Indian Legal Service
 - (iii) Judicial Service
 - (iv) Member of Bar
4. In the case of High Court Judge
 - (i) Date of appointment as High Court Judge:
 - (ii) Place of posting:
5. In the case of others
 - (i) Name of Service:
 - (ii) Year of joining service:
 - (iii) Since when in Grade I of ILS/Judicial Service:
 - (iv) Present scale of pay:
6. Educational Qualifications
(Mention award of prize, scholarship, fellowship or any other distinction)
7. Date of Superannuation (If applicable):
8. Designation of Present/Last Post held:
9. (a) Office Address & Telephone Number:
(b) Residential Address & Telephone Number:
(c) Correspondence Address (along with Mobile Number and Email ID):
10. Practice (for Members of Bar)
 - (a) Date of enrolment
 - (b) Actual number of years of practice
 - (c) Places and/or the courts before whom practised and the period
 - (d) Nature of practice-
Civil, Criminal, Constitutional, Taxation,
Labour, Company, Service etc.

- (e) The field of specialization, if any
 - (f)
 - (i) Professional Income for the last three Assessment Years (2015- 16, 2016-17 & 2017-18) - gross and taxable
 - (ii) Year in which first assessed to Income Tax- gross professional income in that year be furnished.
 - (g) Reported judgments of Supreme Court and High Courts, for the last five years, in which argued independently (give citations)
 - (h) Unreported judgments of Supreme Court and High Courts, for the last five years, in which argued independently (annex certified/ attested copies)
11. Association, if any, with any political party
- (a) Name of the party
 - (b) Period of association
 - (c) Whether held any organizational office and if so, period
 - (d) Whether held elective office in any legislative or local authority and, if so, the period.
12. Whether held any office as Advocate General, Government Advocate or Standing Counsel for the State or Union or any statutory authority or public undertakings (give particulars).
13. In the case of a Judicial Officer, details of the posts held during the last ten years with dates. Details of any departmental inquiry held or contemplated, with particulars as to the nature of charges and period or periods involved and the outcome thereof, should be indicated.
14. Whether employed at any time either on part-time or full-time basis. If so, give status and period and the reasons for leaving.
15. Special knowledge and experience in dealing with service matters and laws (Please elaborate):

16. Indicate special achievement during last 10 years (separate sheet may be attached for indicating special achievement – in not more than 150 words)
17. Indicate the month of year 2019 in which the officer will be available for joining the Tribunal, if selected :

The information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been suppressed. I understand that in case of my selection, if any information furnished above is found to be false or misrepresented at a later stage, my selection is liable to be cancelled with the approval of the Competent Authority.

(SIGNATURE)

(NAME IN CAPITAL.....)

Place:

Date:

To be filled in by the candidate in his own handwriting
No. F/1 19 -R Roll No.

सं.लो.ने.आ. 21क/U.P.S.C.-21A

हाल ही के पासपोर्ट साइज
(5 से.मी. x 7 से.मी.) के
हस्ताक्षरित फोटो का प्रति दिवकांतर
Affix signed Passport size
(5cm x 7cm approx.)
copy of recent photograph

सत्यापन फार्म/ATTESTATION FORM
चेतावनी/WARNING

सत्यापन फार्म में झूठी सूचना देना या किसी तथ्य को छिपाना अर्थात् कमजोरी वाली सूचना देना उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझने की संभावना है।

The furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

2. इस फार्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नकारात्मक, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, बन्दी, जमाना, दण्डित, विधिवत, दोषमुक्त आदि किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल सब लोक सेवा आयोग को अथवा उस अधिकारी को यथास्थिति भेजी जानी चाहिए, जिसको पहले सत्यापन फार्म भेजा गया है। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि वास्तविक सूचना छिपाई गई है।

If detained, arrested, prosecuted, bond down, fined, convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the completion and submission of this form the details should be communicated immediately to the Union Public Service Commission or the authority to whom the attestation form has been sent earlier, as the case may be, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

3. यदि किसी व्यक्ति को सेवाकाल में यह पता चलता है कि सत्यापन फार्म में झूठी सूचना दी गई है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो उसके सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.

| | उपनाम Surname | नाम Name |
|--|------------------|-------------|
| 1. पूरा नाम (सब अक्षरों में) उपनामों सहित (यदि आपने अपने नाम या उपनाम में किसी सनय कुछ बढ़ाया या बढ़ाया है तो कृपया बताएं) Name in full (in Block, Capitals), with aliases, if any (Please indicate if you have added or dropped at any stage, any part of your name or surname). | | |
| 2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली/सड़क/मार्ग और नगर) Present address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town) | | |
| 3. (क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली/सड़क/मार्ग और नगर और जिले के मुख्यालय का नाम)। (a) Home address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane/Street/Road and Town and name of District Headquarter). | (क) (a) | |
| (ख) यदि पाकिस्तान का मूल निवासी है तो उस देश में पता और भारत में प्रवेश की तिथि। (b) If originally a resident of Pakistan the address in that country and the date of migration to Indian Union. | (ख) (b) | |

4. उन स्थानों का ब्यौरा (रहने की अवधियों सहित) जहाँ आप पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेशों (पाकिस्तान सहित) रहे हों तो उन स्थानों का ब्यौरा देना चाहिए जहाँ आप एक वर्ष से अधिक समय तक 21 वर्ष की आयु होने के बाद रहे हों।

Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given.

| From | To | निवास स्थानों के पूरे पते (ग्राम, थाना और जिले व सड़क नम्बर, गली/सड़क/मार्ग और नगर) Residential address in full (i.e. village, Thana and District or House Number, Lane Street Road and Town | पिछले खंभे में दिये गये स्थान के जिले के मुख्यालय का नाम Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding column. |
|------|----|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. बंधु

| व्यक्ति का नाम Relation Name | राष्ट्रियता (जन्म से और/या अधिवास से) Nationality (by birth and or by domicile) | जन्म का स्थान Place of birth | व्यवसाय (यदि निका में ही हो पूरा पदनाम और कार्यालय का पूरा पता देना जरूरी) Occupation (if employed give full designation & Official address) | वर्तमान ठाक का पता (यदि मृतक हो तो पिछला पता) Present Postal address (if dead give last address) | घर का स्थाई पता Permanent Home address |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| (i) पिता / पूरा नाम उपरोक्त सहित यदि कोई हो Father (Name in Full aliases, if any) | | | | | |
| (ii) माता Mother | | | | | |
| (iii) पत्नी/पति Wife/Husband | | | | | |
| (iv) भाई Brother(s) | | | | | |
| (v) बहन Sister(s) | | | | | |

(ख) विदेश में पढ़ रहे/रह रहे पुत्र/ (पुत्रों) और/या पुत्री/ (पुत्रियों) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।
(b) Information to be furnished with regard to son(s) and/or daughter(s) in case they are studying/living in a foreign country.

| नाम Name | राष्ट्रियता (जन्म से और/या अधिवास से) Nationality (by birth and or by domicile) | जन्म का स्थान Place of birth | देश का नाम जहाँ पढ़ रहे/ रह रहे हैं पूरा पता Country in which studying/living with full address | पिछले कॉलम में दिये गये देश में जिस कारोबार से पढ़/रहे हैं Date from which studying/living in the country mention in previous column |
|-------------|--|---------------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |

6. राष्ट्रियता
Nationality
7. (क) जन्म की तारीख (ईस्वी संवत् में) (क)
(a) Date of birth (in Christian era) (a)
(ख) वर्तमान आयु (ख)
(b) Present Age (b)
(ग) मैट्रिक के समय आयु (ग)
(c) Age at matriculation (c)
8. (क) जन्म स्थान, जिला और राज्य जिनमें यह स्थित है (क)
(a) Place of birth, District and State in which situated (a)
(ख) आप किस जिले और राज्य के हैं (ख)
(b) District and State to which you belong (b)
(ग) आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं (ग)
(c) District and State to which your father originally belongs (c)
9. (क) आपका धर्म (क)
(a) Your religion (a)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के हैं? (ख)
उत्तर हाँ या नहीं के रूप में दें।
(b) Are you a member of a Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC? (b)
Answer 'Yes or No'

10. 15 वर्ष की आयु से कितन-कितनी स्कूलों और कालेजों में और कितन-कितने वर्षों में कितना प्रश्न की उनकी स्थायी को वर्षों के साथ दिखाते हुए शिक्षा संबंधी विवरण दें।
Educational qualification showing places of education with years in Schools and Colleges since 15th year of age :

| स्कूल/कालेज का नाम और पूरा पता Name of School/College with full address | प्रवेश की तारीख Date of entering | छोड़ने की तारीख Date of leaving | परीक्षा Examination |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. (क) क्या आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्ध-सरकारी या स्वायत्त सरकारी निकाय या कर्मचारी निकाय या सार्वजनिक उपकरण या किसी गैर सरकारी उपकरण या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं या पहले कभी कार्य किया है? यदि हाँ, तो नियुक्ति की तारीख सहित पूर्ण विवरण दें।
(a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central or State Governments or a semi-Government or a quasi-Government body or an autonomous body, or a public undertaking or a private firm or institution? If so, give full particulars with dates of employments up-to-dates :

| अवधि Period | पद, परिलोक्यमानों तथा संवर्गों का स्वरूप Designation, emoluments and name of employment | नियुक्ति का पूरा नाम व पता Full name and address of employer | पहली नौकरी छोड़ने का कारण Reasons of leaving previous service |
|----------------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार/राज्य सरकार/भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालित किसी उपकरण, किसी स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय/स्वयंचालित निकाय के अधीन थी, यदि आपने केंद्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के अधीन या किन्हीं इसी प्रकार के नियमों के अधीन एक महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी तो क्या आपको विरह कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी या जब आपकी सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था या बाद में आपको सेवा को वास्तव में समाप्त होने से पहले एक आपसे किसी मामले में आपके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था?
(b) If the previous employment was under the Government of India/State Government/An Undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Government/Autonomous body/University/Local body. If you had left service on giving a month notice under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 or any similar corresponding rules were any disciplinary proceedings framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any manner at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date before your services actually terminated?

पहचान प्रमाण-पत्र
IDENTITY CERTIFICATE

प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए—
Certificate to be signed by any one of the following:—

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार के सूचयित अधिकारी;
Gazetted officers of Central or State Government;
- (2) साधारण तथा जहाँ का उम्मीदवार तथा उसके माता-पिता/रक्षक निवासी हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य या राज्य विधान निकाय के सदस्य;
Members of Parliament or State legislature belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardian ordinarily reside;
- (3) सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट/अधिकारी;
Sub-Divisional Magistrate/Officers;
- (4) मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत जहासदार या नायब उप-जहासदार;
Tehsildar or Naib/Dy. Tehsildar authorised to exercise magisterial powers;
- (5) जहाँ उम्मीदवार पहले पढ़ा रहा हो वहाँ के सम्प्रदायाय स्कूल/कालेज/संस्था का प्रिंसिपल/मुख्याध्यक्ष;
Principal/Headmaster of the recognised School/College/Institution where the candidate studied last;
- (6) ब्लॉक विकास अधिकारी;
Block Development Officers;
- (7) पोस्टमस्टर; और
Postmaster; and
- (8) पंचायत निरीक्षक;
Panchayat Inspectors;

प्रमाणित किया जाता है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री श्री.....
 Certified that I have known Shri/Shrimati/Kumari.....son/daughter of
 Shri.....

.....को पिछले.....वर्षों.....
for the last.....years.....months

महानों से जानता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है और विश्वास है कि उसने जो ब्यारे दिने है वह सही है।

and that to the best of my knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

हस्ताक्षर.....

Signature

पदनाम या हैसियत और पता

Designation or Status and address

स्थान.....

Place

तारीख.....

Date

(कार्यालय द्वारा भरा जाने के लिए)

(To be filled by the Office)

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता
 Name, designation and full address of the appointing authority
- (2) पर किसके लिए उम्मीदवार को संबंध में विचार किया जा रहा है।
 Post for which the candidate is being considered.

INSTRUCTIONS:

1. Please provide information as sought within the space provided.
2. In case any additional information is required please attach separate sheets with due cross references under the specific column.
3. No columns in the application should be left blank.
4. Every column should contain complete and specific information as sought, or please indicate "NIL" in case of non-applicability.
5. Contact details may please be clearly specified.
6. No further correspondence shall be entertained with respect to the applications made.
7. The envelope containing the applications should clearly be superscribed by indicating that the application is for the position of Member, CAT (Administrative or Judicial).